

DO NOT OPEN THIS QUESTION BOOKLET UNTIL YOU ARE ASKED TO DO SO

Booklet No. :

119530

Roll No.

Time Allowed : 2 Hours

Booklet Series

B

Maximum Marks : 90

**INSTRUCTIONS FOR CANDIDATES**

1. Immediately after commencement of the Examination, check that this Question Booklet contains **16** pages and **does not have any unprinted, torn or missing pages or items**, etc. If so, get it replaced by a New Question Booklet of same series.
2. Enter your Roll Number on the Question Booklet in the Box provided above. DO NOT write anything else on the Question Booklet and avoid any stray marks.
3. Candidates must fill up the necessary information only in the space provided on the supplied OMR Sheet before commencement of the examination and must not make any unnecessary marks on it. Necessary directions are available on the OMR Sheet for filling up the same.
4. For marking the correct answer, darken **one circle** by **black or blue** ballpoint pen only. **Do not mark on more than one circle**. Darkening more than one circle will be treated as wrong answer.
5. Do not detach any leaf from this Question Booklet. After the Examination, hand over the **OMR Sheet to the Room Invigilator**. You are allowed to take the Question Booklet after the Examination is over.
6. This Question Booklet contains **90** Questions. Each question carries **1 mark**. There is no negative marking for any wrong answer.
7. Questions in General Knowledge, Mathematics, Reasoning & Computer are both in Hindi & English. However, English Version shall always prevail in case of any discrepancy or inconsistency between English version and its Hindi Translation.
8. Two pages have been provided for Rough Work in this Question Booklet.
9. Possession and use of Calculator, Smart Watch/Watch, Mobile Phone and Electronic Gadgets is strictly prohibited in the Examination Hall.
10. Candidates are informed that evaluation of the OMR Sheet will be done by Electronic Machine. So, darken the circles on the OMR Sheet properly, otherwise Machine will not be able to read and evaluate it. Failure to comply with this instruction will be the sole responsibility of the candidates.

यान दे : अनुदेशों का हिन्दी रूपान्तर इस प्रकाश के अंतिम पृष्ठ पर छपा है।

(B-1)



# Test Prime

**ALL EXAMS,  
ONE SUBSCRIPTION**



**50,000+**  
Mock Tests



Personalised  
Report Card



Unlimited  
Re-Attempt



**500+**  
Exam Covered



Previous Year  
Papers



**500%**  
Refund



**ATTEMPT FREE MOCK NOW**

निर्देश (01-05) : निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए—

- |               |                |
|---------------|----------------|
| (a) विश्लेषण  | (b) विश्लेसन   |
| (c) विश्लेषम् | (d) विश्लेषण   |
| (e) संश्लेषण  | (b) शस्त्रलेषण |
| (f) शंश्लेषण  | (d) संप्लेशन   |
| (g) साहित्यिक | (b) साहीत्यिक  |
| (h) साहत्यिक  | (d) साहित्यिक  |
| (i) वहिष्कार  | (b) बहिस्कार   |
| (j) बहीष्कार  | (e) बहिष्कार   |
| (k) तिलाजली   | (b) तिलाजंली   |
| (l) तिलांजलि  | (d) तिल्लांजलि |

निर्देश (06-10) : निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द उनके दिए गए विकल्पों में से चुनें—

- |   |              |               |
|---|--------------|---------------|
| 6. जिसके समान दूसरा न हो—                         | (a) लौकिक    | (b) स्वर्गिक  |
| (c) अप्रतिभा                                      | (d) अप्रतिम  |               |
| 7. वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं— | (a) गोधूलि   | (b) सूर्यास्त |
| (c) सायं बेला                                     | (d) अपराह्ण  |               |
| 8. जो शत्रु की हत्या करता है—                     | (a) शत्रुघ्न | (b) नश्वर     |
| (c) जन्माध  | (d) निर्दयी  |               |

जिसके आरपार देखा जा सके—

- |              |                  |
|--------------|------------------|
| (a) दूरदर्शी | (b) सूक्ष्मदर्शी |
| (c) पारदर्शी | (d) अतलदर्शी     |

10. आयु में बड़ा व्यक्ति—

- |             |            |
|-------------|------------|
| (a) कनिष्ठ  | (b) वरिष्ठ |
| (c) ज्येष्ठ | (d) पूजनीय |

निर्देश (11-12) : निम्नलिखित मुहावरों/लोकोक्तियों का अर्थ उनके दिए गए विकल्पों में से चुनें—

11. 'तलवार की धार पर चलना' का अर्थ है—

- (a) नुकीला होना
- (b) पराजित कर देना
- (c) ईर्ष्या करना
- (d) कठिन कार्य करना

12. 'हाथ का मैल' का अर्थ है—

- (a) तुच्छ वस्तु
- (b) कीमती वस्तु
- (c) महंगी वस्तु
- (d) भारी वस्तु

निर्देश (13-16) : निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर, जो लेखक के विचारानुसार हो, दिए गए विकल्पों में से चुनिए—

लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब वह बहुत बढ़ जाता है, तब उस वस्तु की प्राप्ति, सानिध्य या उपभोग से जी नहीं भरता। मनुष्य चाहता है कि वह बार-बार मिले या बराबर मिलता रहे। धन का लोभ, जब रोग होकर चित्त में घर कर लेता है, तब प्राप्ति होने पर भी और प्राप्ति की इच्छा बराबर बनी रहती है, जिससे मनुष्य सदा आतुर और प्राप्ति के आनन्द से विमुख रहता है। जितना नहीं है उतने के पीछे, जितना है उतने से प्रसन्न होने का, उसे कभी अवसर ही नहीं मिलता। उसका सारा अन्तःकरण सदा अभावमय रहता है। उसके लिए जो है वह भी नहीं है। असंतोष, अभाव-कल्पना से उत्पन्न दुःख है; अतः जिस किसी में यह अभाव-कल्पना स्वाभाविक हो जाती है, सुख से उसका नाता सब दिन के लिए टूट जाता है। न किसी को देखकर वह प्रसन्न होता है और न उसे देखकर कोई प्रसन्न होता है। इसी से संतोष सात्त्विक जीवन का अंग बताया गया है।

13. गद्योंश का सही शीर्षक है—

- (a) असंतोष
- (b) धन—लोभ
- (c) लोभ और असंतोष**
- (d) लोभ और प्रीति

14. मनुष्य का अन्तःकरण सदैव अभावमय क्यों रहता है ?

- (a) वह सात्त्विक जीवन जीने लगता है
- (b) जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर नहीं मिलता**
- (c) लोभ की पूर्ति हेतु वह अनेकानेक वस्तुओं की प्राप्ति कर लेता है
- (d) जितना है उतने से वह प्रसन्न हो जाता है

15. सात्त्विक जीवन का अंग किसे कहा गया है ?

- (a) धन—लोभ
- (b) संतोष**
- (c) परोपकार
- (d) भक्ति

16. असंतोष किस प्रकार का दुःख माना गया है ?

- (a) लोभ की पूर्ति न होने का दुःख माना गया है
- (b) धन प्राप्त न होने का दुःख माना गया है
- (c) संतोष प्राप्त होने का दुःख माना गया है
- (d) अभाव—कल्पना से उत्पन्न दुःख माना गया है**

**निर्देश (17-18) :** निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन उनके दिए गए विकल्पों में से कीजिए —

17. अनिल

- (a) चक्रवात
- (b) पावस
- (c) पवन**
- (d) अनल

18. दर्घ

- (a) विरस्कार
- (b) अहंकार
- (c) व्यथा**
- (d) ऊँचाभिमान

**निर्देश (19-20) :** निम्नलिखित शब्दों विलोम शब्द का चयन उनके दिए गए विकल्पों में करें—

19. सूक्ष्म

- (a) अदृश्य
- (b) दृष्टव्य**
- (c) निश्चित
- (d) अस्थूल

20. सृष्टि

- (a) मरण
- (b) प्रलय**
- (c) वृष्टि
- (d) मोक्ष

**Directions (21-24) :** Read the passage and then answer the questions based on it. You are required to select your answers based on the contents of the passage and opinion of the author only.

#### PASSAGE

The debate about whether men are stronger than women is often unclear because the word "strong" may mean many things. For example, men are generally better at lifting heavy objects, striking forcefully, and doing intense physical tasks. However, women tend to live longer than men and often have stronger resistance to disease. They also often excel in tasks requiring precision, such as those involving finger coordination or working accurately over long periods. So, it could be argued that women are stronger in these respects. The truth is that each gender is stronger in different areas, and to argue otherwise is to oversimplify the topic.

21. Why is the debate about whether men are stronger than women unclear ?
- Because both genders are equally strong in all aspects.
  - Because the word "strong" may mean many different things.
  - Because men are always stronger than women.
  - Because strength is only measured by physical power.
22. According to the passage, men generally excel at which of the following ?
- Living longer.
  - Tasks requiring precision.
  - Lifting heavy objects and physical labour.
  - Resistance to disease.
23. What strength do women tend to have over men, according to the passage ?
- They are better at lifting heavy objects.
  - They live longer and have stronger resistance to disease.
  - They can strike forcefully.
  - They are stronger in physical labour.
24. What is the main message of the passage ?
- Men and women are equally strong in all areas.
  - All women are incapable of running, jumping and doing physical labour because they are not strong.
  - Men and women are strong in different ways, and the argument about one being stronger than the other oversimplifies the topic.
  - Only physical strength should be considered when comparing genders.

**Directions (25-29) :** In the following questions, out of the four alternatives, select the word nearest in meaning to the words given.

25. Vitriolic
- Imaginative
  - Sprightly
  - Vivacious
  - Abusive
26. Candid
- Kind
  - Courteous
  - Generous
  - Frank
27. Profane
- Assert
  - Benefit
  - Lengthen
  - Desecrate
28. Interpolate
- Clarify
  - Investigate
  - Reverse
  - Insert
29. Nadir
- Asylum
  - Heaven
  - Lowest point
  - Zenith
- Directions (30-34) :** Choose the alternative that is most nearly opposite in meaning to the given words.
30. Fiasco
- Success
  - Joy
  - Fun
  - Disaster
31. Confident
- Imprudent
  - Impatient
  - Diffident
  - Reluctant
32. Mammoth
- Significant
  - Small
  - Unruly
  - Noisy
33. Engrossed
- Occupied
  - Inattentive
  - Engaged
  - Absent



44. Blood is a type of  
 (a) Epithelial tissue  
 (b) Muscular tissue  
 (c) Nervous tissue  
 (d) Connective tissue
44. स्फुट एक प्रकार का  
 (a) उपकला ऊतक है  
 (b) पेशी ऊतक है  
 (c) तन्त्रिका ऊतक है  
 (d) संयोजक ऊतक है
45. Lub-Dub'sound is produced due to action of :  
 (a) Large intestine  
 (b) Lungs  
 (c) Heart  
 (d) Oesophagus
45. 'लब-डब' ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है ?  
 (a) बड़ी आत  
 (b) फेफड़े  
 (c) हृदय  
 (d) ग्रासनली
46. Who was the Education Minister in the first Cabinet of Independent India ?  
 (a) Sarvepalli Radhakrishnan  
 (b) Sardar Vallabhbhai Patel  
 (c) Maulana Abul Kalam Azad  
 (d) Acharya Narendra Dev
46. स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमण्डल में शिक्षा मंत्री कौन थे ?  
 (a) सर्वपल्ली राधाकृष्णन  
 (b) सरदार वल्लभभाई पटेल  
 (c) मौलाना अबुल कलाम आजाद  
 (d) आचार्य नरेन्द्र देव
47. Which one of the following associations was founded in London by Dadabhai Naoroji in 1866 ?  
 (a) The Bengal British India Society  
 (b) The East India Association  
 (c) The British Indian Association  
 (d) The Madras Native Association
47. वर्ष 1866 में दादाभाई नौरोजी द्वारा लन्दन में, निम्नलिखित में से कौन-से संघ (संस्था) की स्थापना की गई ?  
 (a) द बंगाल ब्रिटिश इण्डिया सोसायटी  
 (b) द ईस्ट इण्डिया एसोसिएशन  
 (c) द ब्रिटिश इण्डियन एसोसिएशन  
 (d) द मद्रास नेटिव एसोसिएशन
48. Who is presently the Secretary General of United Nations Organisation :  
 (a) Antonio Guterres  
 (b) Amina J. Mohammed  
 (c) Dennis Francis  
 (d) None of these
48. वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है ?  
 (a) एंटोनियो गुटेरेस  
 (b) अमीना जो मोहम्मद  
 (c) डेनिस फ्रांसिस  
 (d) इनमें से कोई नहीं

49. Jelep La pass is located in  
 (a) Punjab Himalaya  
 (b) Sikkim Himalaya  
 (c) Kumaon Himalaya  
 (d) Kashmir Himalaya

49. जेलेप-ला दर्रा कहाँ अवस्थित है ?

- (a) पंजाब हिमालय  
 (b) सिक्खिम हिमालय  
 (c) कुमाऊँ हिमालय  
 (d) कश्मीर हिमालय

50. Which one among the following is the coral group of islands of India ?

- (a) Andaman      (b) Nicobar  
 (c) Barren          (d) Lakshadweep

50. निम्नलिखित में से कौन-सा एक भारत का प्रवाल द्वीप-समूह है ?

- (a) अण्डमान      (b) निकोबार  
 (c) बेरन            (d) लक्षद्वीप

51. Which one among the following is not a Fundamental Right under the Constitution of India ?

- (a) Right to equality  
 (b) Right to freedom  
 (c) Right to citizenship  
 (d) Right against exploitation

51. भारत के संविधान के अन्तर्गत निम्नलिखित में से कौन-सा एक मौलिक (मूल) अधिकार नहीं है ?

- (a) समता का अधिकार  
 (b) स्वतंत्रता का अधिकार  
 (c) नागरिकता का अधिकार  
 (d) शोषण के विरुद्ध अधिकार

52. The 'Basic Structure Doctrine' enunciated by the Supreme Court during the

- (a) Golak Nath case  
 (b) Maneka Gandhi case  
 (c) Kesavananda Bharati case  
 (d) S. R. Bommai case

52. 'आधारभूत संरचना सिद्धान्त' (वैसिक डॉक्यूमेंट) उच्चतम न्यायालय द्वारा किस बाब्त के दौरान निरूपित किया गया ?

- (a) गोलकनाथ मामला  
 (b) मेनका गांधी मामला  
 (c) केशवानन्द भारती मामला  
 (d) एसो आरो बोम्मई मामला

53. Who among the following was not a member of the Drafting Committee of the Constitution of India ?

- (a) B. R. Ambedkar  
 (b) K. M. Munshi  
 (c) Krishnaswamy Iyer  
 (d) M. K. Gandhi

53. इनमें से कौन भारत के संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था ?

- (a) बीरो आरो अम्बेडकर  
 (b) केमो एमो मुंशी  
 (c) कृष्णास्वामी अथ्यर  
 (d) एमो केमो गांधी

54. Which one of the following is not an ASEAN member ?

- (a) Cambodia  
 (b) Laos  
 (c) Myanmar  
 (d) Taiwan

54. निम्नलिखित में से कौन-सा एक ASEAN का सदस्य नहीं है?
- कम्बोडिया
  - लाओस
  - म्यांमार
  - ताइवान
55. In the term GIS, 'G' stands for
- Google
  - Geographic
  - Goodness
  - Geological
55. GIS शब्द में 'G' किस शब्द के लिए है?
- गूगल
  - जियोग्राफिक
  - गुडनेस
  - जियोलॉजिकल
56. What will be obtained by multiplying the difference obtained by subtracting  $3\frac{2}{3}$  from  $9\frac{1}{9}$  by 450?
- 2250
  - 2045
  - 2540
  - 2450
56.  $9\frac{1}{9}$  में से  $3\frac{2}{3}$  घटाने पर प्राप्त अन्तर को 450 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा?
- 2250
  - 2045
  - 2540
  - 2450
57. If  $\frac{A}{3} = \frac{B}{2} = \frac{C}{5}$ , then, what is the value of ratio  $(C+A)^2 : (A+B)^2 : (B+C)^2$ ?
- 64 : 25 : 49
  - 54 : 35 : 39
  - 64 : 55 : 49
  - 64 : 25 : 51
57. यदि  $\frac{A}{3} = \frac{B}{2} = \frac{C}{5}$ , तो अनुपात  $(C+A)^2 : (A+B)^2 : (B+C)^2$  का मान क्या है?
- 64 : 25 : 49
  - 54 : 35 : 39
  - 64 : 55 : 49
  - 64 : 25 : 51

58. Two numbers are in the ratio 1 : 3. If their sum is 240, then what is their difference?
- 120
  - 108
  - 100
  - 96
58. दो संख्यायें 1 : 3 के अनुपात में हैं। यदि इनका योगफल 240 हो, तो इनका अन्तर कितना है?
- 120
  - 108
  - 100
  - 96
59. A alone can finish a piece of work in 20 days while B alone can finish it in 25 days. Both work together for 5 days. Then B leaves the work. In how many days can A alone do the remaining work?
- 11
  - 13
  - 15
  - 17
59. A अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि B अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर B काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को A अकेला कितने दिन में कर पायेगा?
- 11
  - 13
  - 15
  - 17
60. A can do a piece of work in 4 hours, B and C together in 3 hours and A and C together in 2 hours. In how much time B alone can complete the work?
- 10 hours
  - 12 hours
  - 8 hours
  - 24 hours
60. A एक कार्य को 4 घंटे में, B तथा C मिलकर 3 घण्टे में तथा A और C मिलकर उसे 2 घण्टे में पूरा कर सकते हैं। B अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा?
- 10 घण्टे
  - 12 घण्टे
  - 8 घण्टे
  - 24 घण्टे

61. A man goes from A to B at the speed of 60 km/h and returns from B to A at the speed of 40 km/h. What is his average speed for the whole journey?

- (a) 50 km/hr
- (b) 48 km/hr
- (c) 45 km/hr
- (d) 55 km/hr

61. एक व्यक्ति A से B तक 60 किमी० प्रति घण्टा की गति से जाता है तथा B से A तक 40 किमी० प्रति घण्टा की गति से लौटता है। सम्पूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी है?

- (a) 50 किमी०/घंटा
- (b) 48 किमी०/घंटा
- (c) 45 किमी०/घंटा
- (d) 55 किमी०/घंटा

62. A person goes from point A to point B at the speed of 4 km/h and returns from point B to point A at the speed of 6 km/h. What will be the ratio of the time taken to reach from A to B and the time taken to reach from B to A?

- (a) 5 : 3
- (b) 2 : 3
- (c) 2 : 1
- (d) 3 : 2

62. एक व्यक्ति बिन्दु A से बिन्दु B तक 4 किमी०/घण्टा की गति से जाता है तथा वापस बिन्दु B से बिन्दु A तक 6 किमी०/घण्टा की गति से लौटता है। A से B तक पहुँचने तथा B से A तक आने में लगे समय का अनुपात क्या होगा?

- (a) 5 : 3
- (b) 2 : 3
- (c) 2 : 1
- (d) 3 : 2

63. Simple interest on a sum of money equal to  $\frac{1}{4}$  of principal, and number of years is equal to rate of interest. What is the percentage rate of interest per annum?

- (a) 2.5%
- (b) 5%
- (c)  $7\frac{1}{2}\%$
- (d) 10%

63. किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन के है तथा वर्षों की संख्या, प्रतिशत दर के बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है?

- (a) 2.5%
- (b) 5%
- (c)  $7\frac{1}{2}\%$
- (d) 10%

64. Find the compound interest of Rs. 125000 at 8% per annum for 9 months, when the interest is payable quarterly.

- (a) Rs. 7651
- (b) Rs. 7605
- (c) Rs. 8652
- (d) Rs. 8052

64. 125000 रु० का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज तिमाही देय हो।

- (a) 7651 रु०
- (b) 7605 रु०
- (c) 8652 रु०
- (d) 8052 रु०

65. What is the value of  $(0.74 + 0.48 + 0.90)$

- (a) 1.87
- (b) 2.14
- (c) 3.56
- (d) 4.12

65.  $(0.74 + 0.48 + 0.90)$  का मान क्या है?

- (a) 1.87
- (b) 2.14
- (c) 3.56
- (d) 4.12

**Direction (66-69) :** Read the following information carefully and answer the questions given below it :

Six friends A, B, C, D, E and F are sitting in a row facing towards North. C is sitting between A and E. D is not at the end. B is sitting immediate right to E. F is not at the right end.

66. How many persons are there to the right of D ?

- (a) One
- (b) Two
- (c) Three
- (d) Four

67. Which of the following pairs is sitting to one side of D ?

- (a) FB
- (b) FC
- (c) FE
- (d) AC

68. Who is sitting immediate left of C ?

- (a) A
- (b) E
- (c) B
- (d) F

69. Who is at the right end ?

- (a) A
- (b) B
- (c) E
- (d) F

**निर्देश (66-69) :** निम्नलिखित सूचनाओं को सावधानीपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें :

छह दोस्त A, B, C, D, E और F उत्तर की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। C, A और E के बीच बैठा है। D अंत में नहीं है। B, E के ठीक दाएं बैठा है। F दाएं से अंत में नहीं है।

66. D के दायीं ओर कितने व्यक्ति हैं ?

- (a) एक
- (b) दो
- (c) तीन
- (d) चार

67. निम्नलिखित में से कौन-सा पेयर D के एक तरफ बैठा है ?

- (a) FB
- (b) FC
- (c) FE
- (d) AC

68. C के ठीक बाएं तरफ कौन बैठा है ?

- (a) A
- (b) E
- (c) B
- (d) F

69. दाएं किनारे पर कौन बैठा है ?

- (a) A
- (b) B
- (c) E
- (d) F

**Direction (70-72) :** Read the following information and answer the questions given below :

B is the mother of A. C, B's sister, has a son D and a daughter E. F is the maternal uncle of D.

70. How is A related to D ?

- (a) Cousin
- (b) Nephew
- (c) Maternal Uncle
- (d) Brother

71. How is E related of F ?

- (a) Sister
- (b) Daughter
- (c) Niece
- (d) Wife

72. How many nephews does F have ?

- (a) Nil
- (b) One
- (c) Two
- (d) Three

**निर्देश (70-72) :** निम्नलिखित जानकारी पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें-

B, A की माँ है। C, B की बहन, का एक बेटा D है और एक बेटी E है। F, D का मामा है।

70. A, D से किस प्रकार संबंधित है ?

- (a) मौसेरा भाई
- (b) भाजा
- (c) मामा
- (d) भाई

71. E, F से किस प्रकार संबंधित है ?

- (a) बहन
- (b) बेटी
- (c) भाजी
- (d) पली

72. F के कितने भांजे हैं ?

- (a) एक भी नहीं
- (b) एक
- (c) दो
- (d) तीन

**Direction (73-75) :** In each of the following questions, find out how many such pairs of letters are there in the given word, each of which has as many letters between them in the word as is/are between them in the English alphabet.

#### 73. NECESSARY

- (a) One
- (b) Two
- (c) Three
- (d) Four

#### 74. PREAMBLE

- (a) One
- (b) Two
- (c) Three
- (d) Four

#### 75. ORIENTAL

- (a) One
- (b) Two
- (c) Three
- (d) Four

**निर्देश (73-75) :** निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द में वर्णों के ऐसे कितने जोड़े हैं, जिनके बीच उतने ही वर्ण हैं, जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं ?

#### 73. NECESSARY

- (a) एक
- (b) दो
- (c) तीन
- (d) चार

#### 74. PREAMBLE

- (a) एक
- (b) दो
- (c) तीन
- (d) चार

#### 75. ORIENTAL

- (a) एक
- (b) दो
- (c) तीन
- (d) चार

76. A set of instructions in a sequential manner telling the computer what to do is called :

- (a) Instructor
- (b) Compiler
- (c) Program
- (d) Key-Board

76. कम्प्यूटर को क्या करना है, यह बताने के लिए दिये जाने वाले निर्देशों (क्रमबार) के समूह (set) को कहा जाता है :

- (a) इंस्ट्रक्टर
- (b) कम्पाइलर
- (c) प्रोग्राम
- (d) की बोर्ड

77. Electronic components predominantly used in first generation computers were

- (a) Magnetic drum
- (b) Transistor
- (c) Vacuum tubes
- (d) IC

77. प्रथम पीढ़ी के कम्प्यूटर में मुख्य उप से इलेक्ट्रॉनिक घटक प्रयुक्त होते थे :

- (a) चुम्बकीय ड्रम
- (b) ड्राइजिस्टर
- (c) निर्वात ट्र्यूब
- (d) आइ सी

78. A source program is directly converted to .exe file by which of the following ?

- (a) Compiler
- (b) Interpreter
- (c) Assembler
- (d) Linker

78. निम्न में से किसके द्वारा एक स्रोत प्रोग्राम सीधे .exe फाइल में परिवर्तित होता है ?

- (a) कम्पाइलर
- (b) इंटरप्रेटर
- (c) असेम्बलर
- (d) लिंकर

79. Which protocol is commonly used on internet to exchange files ?

- (a) Telnet
- (b) Gopher
- (c) FTP
- (d) SP

फाइल के अदला-बदली हेतु इन्टरनेट पर सामान्यतः किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है?

- (a) टेलनेट
- (b) गोफर
- (c) एफ०टी०पी०
- (d) एस०पी०

80. Which of the following command is used to add hyperlink in a document?

- (a) Ctrl + F
- (b) Ctrl + K
- (c) Ctrl + B
- (d) Ctrl + V

80. एक दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्न में से किस कमांड का प्रयोग किया जाता है?

- (a) Ctrl + F
- (b) Ctrl + K
- (c) Ctrl + B
- (d) Ctrl + V

81. The type of memory which is fast and temporarily stores the data which are immediately required for use is called as:

- (a) HDD
- (b) ROM
- (c) RAM
- (d) SSD

81. मेमोरी का वह प्रकार जो तीव्र है और अस्थायी रूप से त्वरित वांछित ऑकड़ों को संग्रहित करता है

- (a) HDD
- (b) ROM
- (c) RAM
- (d) SSD

82. A web page is primarily written in the language

- (a) C++
- (b) Python
- (c) HTML
- (d) Java

82. एक वेब पेज मुख्यतः ..... भाषा में लिखा जाता है।

- (a) C++
- (b) पायथन

- (c) HTML
- (d) जावा

83. Every web page has an address associated with it. This address is known as

- (a) URL
- (b) IP
- (c) TCP
- (d) Browser

83. हर वेब पेज के साथ एक पता जुड़ा होता है। इस पते को ..... कहते हैं।

- (a) URL
- (b) IP
- (c) TCP
- (d) ब्राउजर

84. A popular protocol for sending e-mail is

- (a) TCP
- (b) UDP
- (c) SMTP
- (d) HTML

84. ई-मेल भेजने के लिए एक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है

- (a) TCP
- (b) UDP
- (c) SMTP
- (d) HTML

85. MAC address is ..... bits long.

- (a) 24
- (b) 48
- (c) 124
- (d) 64

85. मैक (MAC) एड्रेस ..... बिट्स का होता है।

- (a) 24
- (b) 48
- (c) 124
- (d) 64

86. Temporary storage area that compensates for differences in data rate and data flow between devices is known as .....

- (a) Bus
- (b) Channel
- (c) Modem
- (d) Buffer

86. अस्थायी भण्डारण क्षेत्र जो उपकरणों के बीच डेटा दर और डेटा प्रवाह के अन्तर की भरपाई करता है वह कहलाता है

- (a) बस
- (b) चैनल

- (c) मॉडेम (d) बफर
87. FTP stands for  
 (a) Folder Text Protocol  
 (b) File Transfer Push  
 (c) Fixed Terminology Placement  
 (d) File Transfer Protocol
87. FTP का तात्पर्य है  
 (a) फोल्डर टेक्स्ट प्रोटोकॉल  
 (b) फाइल ट्रान्सफर पुश  
 (c) फिक्सड टर्मिनोलॉजी प्लेसमेन्ट  
 (d) फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकॉल
88. All the deleted files go to  
 (a) Recycle Bin  
 (b) Taskbar  
 (c) Tool bar  
 (d) My Computer
88. सभी डिलीट की हुई फाइलें निम्न में जाती हैं :  
 (a) रीसायकल बिन  
 (b) टास्कबार  
 (c) टूलबार  
 (d) माइक्रोसॉफ्ट कम्प्यूटर
89. Which of the following is not operating system ?  
 (a) DOS (b) UNIX  
 (c) LINUX (d) MS-Office
89. निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ?  
 (a) डॉस (b) यूनिक्स  
 (c) लिनक्स (d) एमोएसओ ऑफिस
90. The process of switching from one open window to another is called  
 (a) Task switching  
 (b) System call  
 (c) Moving  
 (d) None of these
90. एक ओपन विन्डो से दूसरे ओपन विन्डो स्विच करने की प्रक्रिया जानी जाती है  
 (a) टास्क स्विचिंग  
 (b) सिस्टम कॉल  
 (c) मूविंग  
 (d) इनमें कोई नहीं